

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 11 जनवरी 2014—पौष 21, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2014 (पौष 21, 1935)

क्र. 768-वि.स.-विधान-2014.—इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक 662-वि.स.-विधान-2014.—जो कि “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, क्रमांक 11, दिनांक 10 जनवरी, 2014 में प्रकाशित हुई है, में “श्री राजेन्द्र कुमार सिंह” के स्थान पर “डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह” सुधार कर पढ़ा जाय.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.